

जनपद बाराबंकी

दिनांक 22.10.2020

शारदा नहर में मिले शव की शिनाख्त, थाना बड़डूपुर पुलिस द्वारा हत्या कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक-17.10.2020 को वादी द्वारा थाना बड़डूपुर पर लिखित सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री रीवां-सीवां जन सेवा केन्द्र पर स्कालरशिप फार्म भरने गयी थी जहां से राहुल वर्मा पुत्र प्रमोद वर्मा निवासी ग्राम रीवा सीवा थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी ने बहला-फुसला कर कही लेकर चला गया है । इस सूचना के आधार पर थाना बड़डूपुर पर मु0अ0सं0-141/2020 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री आर0एस0गौतम द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया गया । प्रभारी निरीक्षक बड़डूपुर पुलिस टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य/ डिजिटल साक्ष्य के आधार पर सुरागरसी/पतारसी की जा रही थी । इसी बीच दिनांक-19.10.2020 को थाना कुर्सी क्षेत्रान्तर्गत शारदा नहर में महिला का शव मिलने पर शिनाख्त वादी द्वारा अपनी पुत्री के रूप में किया गया । शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 302/201 भादवि की वृद्धि की गयी तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक बड़डूपुर द्वारा संपादित की जा रही हैं ।

प्रभारी निरीक्षक बड़डूपुर श्री जितेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा घटना के सम्बन्ध में भौतिक/डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किया गया । प्राप्त अभिसूचना को विकसित करते हुए आज दिनांक 22.10.2020 को मु0अ0सं0 141/2020 धारा 363/366/302/201भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल वर्मा पुत्र प्रमोद वर्मा निवासी ग्राम रीवां सीवां थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी को सागर पब्लिक स्कूल बहद ग्राम सैदापुर थाना बड़डूपुर बाराबंकी में समय 11.55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से घटना से सम्बन्धित 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया ।

अभियुक्त से पूछताछ व साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आया कि मृतका का प्रेम सम्बन्ध राहुल वर्मा से था और दोनों आपस में बात करते थे । इसी बीच मृतका स्कॉलरशिप फार्म भरने रीवां सीवां जन सेवा केन्द्र गयी थी तो राहुल वर्मा के साथ नहर के किनारे बात करते हुए चल रहे तो शादी करने की बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और राहुल वर्मा द्वारा मृतका का गला दबा दिया गया एवं शरीर को घसीट कर नहर में ढकेल दिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

राहुल वर्मा पुत्र प्रमोद वर्मा निवासी ग्राम रीवां सीवां थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

- 1.प्र०नि० श्री जितेन्द्र विक्रम सिंह थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी ।
- 2.का० राहुल कुमार थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी ।
- 3.का० सौरभ कुमारथाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी ।